

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 नवम्बर, 2017-कार्तिक 12, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

Be it known that I, Alok Garg Father of Minor son Saharsh Garg Old name Soumya Garg whose, age about 15 years doing student and R/o 3, Geeta Colony, Budhawariya, District Ujjain-456006 (M.P.) I have Change my minor son name and henceforth he will be known as Soumya Garg (Old Name) to Saharsh Garg (New Name) in all future correspondence.

ALOK GARG ,

(Father)

Address—3, Geeta Colony, Budhawariya,
District-Ujjain-456006 (M.P.).

(475-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 17-09-2016 के पूर्व मुझे चन्दू शर्मा पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा के नाम से जाना-पहचाना जाता था, अब मुझे रेहमान शेख पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा के नाम से जाना-पहचाना जावेगा. उपरोक्त नाम मैंने अपनी स्वेच्छा से परिवर्तन किया है, अब से सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम रेहमान शेख से ही लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(चन्दू शर्मा)

(476-बी.)

नया नाम :

(रेहमान शेख)

ई-7, प्लॉट नं. 842, वरदान टॉवर,
अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती निम्मी अमायरा शेख पत्नी रेहमान शेख, निवासी ई-7, प्लॉट नं. 842, वरदान टॉवर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (मध्यप्रदेश) की हूँ मेरा पूर्व नाम निम्मी शर्मा पुत्री श्री नन्द कुमार शर्मा था, इसके उपरांत मेरे द्वारा चन्दू शर्मा पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा से विवाह कर लिया था, विवाह उपरांत मेरा नाम निम्मी शर्मा पत्नी श्री चन्दू शर्मा था किन्तु मेरे पति श्री चन्दू शर्मा

द्वारा अपना नाम परिवर्तन कराये जाने के उपरान्त मेरा नाम भी परिवर्तित कर श्रीमती निम्मी अमायरा शेख पत्नी श्री रेहमान शेख हो गया है, तथा अब मैं इसी नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(निम्मी शर्मा)

(477-बी.)

नया नाम :

(निम्मी अमायरा शेख)

CHANGE OF SURNAME

I, Shri Tanmay Kamrani have changed my name from Tanmaykamrani to Tanmay Arora by affidavit sworn before the Notary public, Bhopal Madhya Pradesh on 29-10-2016. Henceforth, I shall be known as Tanmay Arora for all purposes.

Old Name:

(TANMAY KAMRANI)

(478-B.)

New Name :

(TANMAY ARORA)

F-108/3, Shivaji Nagar, Bhopal (M.P.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने मेरे अवयस्क पुत्र का नाम अक्षत सोनी (AKSHAT SONI) से बदलकर अक्षत मंगल सोनी (AKSHAT MANGAL SONI) कर लिया है. अतः भविष्य में मेरे अवयस्क पुत्र को अक्षत मंगल सोनी (AKSHAT MANGAL SONI) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा. सो विदित होवें.

(480-बी.)

अभिषेक सोनी,

सी-128, बसंत विहार,

बाम्बे अस्पताल के सामने, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुराने पासपोर्ट नंबर (G2312584) में मेरा नाम NIDHI RAJPUT भूलवश दर्ज था. चूँकि मेरे सभी शासकीय रिकार्ड में मेरा नाम SMT. NIDHI SINGH RAJPUT दर्ज है. अतः मेरे द्वारा पासपोर्ट रिन्यूअल में अपना नाम सुधार कर SMT. NIDHI SINGH RAJPUT कराया जा रहा है. मेरा वास्तविक नाम SMT. NIDHI SINGH RAJPUT है.

पुराना नाम :

(NIDHI RAJPUT)

(481-बी.)

नया नाम :

(NIDHI SINGH RAJPUT)

पता:-F-11, South Civil Lines,

Jabalpur (M.P.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स आर. वी. एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थित एल. आई. जी.-116, इन्द्रा नगर, शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 02/41/01/00120/11, दिनांक 30-07-2011 है, जिसमें दिनांक 15-01-2017 को भागीदार श्री परशराम सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी औडेन्य मण्डल, मैनपुरी (उ.प्र.) की मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी क्रम में दिनांक 16-01-2017 को भागीदार श्री इकबाल खान पुत्र श्री वशीर खान, निवासी शिवपुरी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 16-01-2017 को अजेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र श्री उम्मेद सिंह भदौरिया, निवासी जौरा, मुरैना नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

(468-बी.)

फर्म-आर. वी. एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर,

राजेश सिंह चौहन, (भागीदार)

हरिओम शर्मा, (एडवोकेट).

शिवपुरी.

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स आशीर्वाद फूड्स एण्ड बेवरेज, मालनपुर मकान नं. 71-बी, अलीजाबाग कॉलोनी, शिन्दे की छावनी, ग्वालियर, म.प्र. जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00103/05, दिनांक 24 नवम्बर, 2005 ने अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर साझेदार श्री मनोज अग्रवाल पुत्र श्री बाबूलाल, उम्र 39 वर्ष, पता-बालाजी बस सर्बिस के पास, लश्कर, ग्वालियर म.प्र. दिनांक 30-03-2016 को फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 01-04-2017 को साझेदार श्री कैलाश चन्द जैन पुत्र श्री नैमीचन्द जैन, उम्र 61 वर्ष, पता-मकान नं. 71-बी, अलीजाबाग कॉलोनी शिन्दे की छावनी, ग्वालियर, म.प्र. अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं अब आगे इन दोनों का इस फर्म से कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है एवं इसी दिनांक 01-04-2017 से श्रीमती तारा भदौरिया पत्नी श्री धर्मवीर सिंह भदौरिया, उम्र 51 वर्ष, धर्म हिन्दू, पता-ए-42, कृष्णा नगर गोले का मंदिर, ग्वालियर, म.प्र. नवीन साझेदार के रूप में फर्म

में सम्मिलित हो गयी है। इसी दिनांक 01-04-2017 से फर्म के वर्तमान पते में भी परिवर्तन किया गया है। फर्म का वर्तमान पता मकान नं. 71-बी, अलीजाबाग कॉलोनी शिन्दे की छावनी, ग्वालियर, म.प्र. था. अब उसके स्थान पर फर्म का नवीन पता फ्लेट नं. 104, जीवनदीप अपार्टमेंट रजनीगंदा इन्क्लेव गोले का मंदिर, ग्वालियर, म.प्र. हो गया है।

For Ashirwad Food & Beverages,
धर्मवीर सिंह,
(Partner).

(469-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स एस. के. जी. कंस्ट्रक्शन EWS-156 के पास भरहुत नगर, सतना, म.प्र. जो कि पंजीयन क्र 05/26/01/00117, दिनांक 13-01-2009, रीवा से पंजीकृत है जिसमें निम्न भागीदार हैं:- 1. संतोष कुमार गुप्ता, 2. सुशील सिंह, 3. जगविजय सिंह यह फर्म दिनांक 21-07-2017 को बंद कर दी गई है। उक्त फर्म से किसी भी व्यक्ति की कोई भी किसी भी प्रकार की लेनदारियां, देनदारियां शेष नहीं हैं। अगर इसमें किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 05 दिवस (पांच दिवस) के अंदर इस पते पर सूचित करें, बाद समाप्त म्याद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

For: मैसर्स एस. के. जी. कंस्ट्रक्शन,
C/o संतोष कुमार गुप्ता,
(भागीदार)

(470-बी.)

नियर EWS-156, भरहुत नगर, सतना, (म.प्र.).

आम सूचना

सर्वजनों को सूचित हो कि फर्म मे. देव कन्स्ट्रक्शन पंजीकृत फर्म है। जिसका पंजीयन क्रमांक 04/17/06/00297/11, दिनांक 07/12/2011 है। फर्म की रचना में दिनांक 01-09-2017 से निम्न परिवर्तन किया गया है।

श्री प्रशांत पांडुरंगजी पराडकर पिता श्री पांडुरंगजी पराडकर ने स्वेच्छा से दिनांक 01-09-2017 को फर्म मे. देव कन्स्ट्रक्शन से सेवानिवृति (Withdraw) ले ली है।

(1) श्री उज्ज्वल चौहान पिता श्री दशरथ सिंह चौहान, (2) श्री योगेश सिंह राठौर पिता श्री सूरज सिंह राठौर तथा (3) श्री प्रशांत दाढे पिता श्री रामभाऊ दाढे उसी दिनांक 01-09-2017 से नये साझेदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हुए हैं।

इस तरह फर्म में दिनांक 01-09-2017 से चार भागीदार (1) श्री उज्ज्वल चौहान पिता श्री दशरथ सिंह चौहान, (2) श्री योगेश सिंह राठौर पिता श्री सूरज सिंह राठौर, (3) श्री प्रशांत दाढे पिता श्री रामभाऊ दाढे, (4) श्रीमति सुमन राजपूत पति श्री शैलेन्द्र सिंह राजपूत है।

संदीप गुमास्ता,
(अधिवक्ता)

(471-बी.)

प्रियदर्शनी कॉलोनी, छिन्दवाड़ा.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. होटल दीपाली, पंजीयन क्र. 06/09/01/00093/12, दिनांक 19-10-2012 पर पंजीकृत है उक्त फर्म को साझेदारों की सहमति से दिनांक 01-04-2014 को भंग कर दी गई है इस संबंध में किसी भी व्यक्ति या संस्था या विभाग को कोई लेनदारी या देनदारी शेष हो तो अभिलेखों के साथ सूचना प्रकाशित होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर निराकरण करा लेवें इसके पश्चात् आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

फर्म मे. होटल दीपाली,
वास्ते साझेदार:-

1. श्री भूपेन्द्र सिंह S/o स्व. श्री अमोल सिंह,
2. श्रीमती सरोज सिंह W/o श्री भूपेन्द्र सिंह,
पता-बामोरा, तह. व जिला सागर (म.प्र.).

(472-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स दीपाली ऑटोमोबाइल्स पंजीयन क्र. 06/09/01/00181/14, दिनांक 18-03-2014 पर पंजीकृत है उक्त फर्म को साझेदारों की सहमति से दिनांक 01-04-2014 को भंग कर दी गई है इस संबंध में किसी भी व्यक्ति या संस्था या विभाग को कोई लेनदारी या देनदारी शेष हो तो अभिलेखों के साथ सूचना प्रकाशित होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर निराकरण करा लेवें इसके पश्चात् आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

फर्म-मे. दीपाली ऑटोमोबाइल्स,
वास्ते साझेदार:-

1. श्री भूपेन्द्र सिंह S/o स्व. श्री अमोल सिंह,
2. श्रीमती सरोज सिंह W/o श्री भूपेन्द्र सिंह,
पता-बामोरा, तह. व जिला सागर (म.प्र.).

(473-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स एस. एस. इंटरप्राइजेज, EWS-156 के पास भरहुत नगर, सतना, म.प्र. जो कि पंजीयन क्र 05/26/01/0203/15, सन् 2014-15, दिनांक 27-02-2015, रीवा से पंजीकृत है जिसमें निम्न भागीदार हैं:- 1. सिद्धार्थ कुमार गुप्ता, तथा 2. संतोष गुप्ता यह फर्म दिनांक 21-07-2017 को बंद कर दी गई है. उक्त फर्म से किसी भी व्यक्ति की कोई भी किसी भी प्रकार की लेनदारियां, देनदारियां शेष नहीं हैं. अगर इसमें किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 05 दिवस (पांच दिवस) के अंदर इस पते पर सूचित करें, बाद समाप्त म्याद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी.

(474-बी.)

एस. एस. इंटरप्राइजेज,
C/o संतोष कुमार गुप्ता,
नियर EWS-156, भरहुत नगर, सतना, (म.प्र.)

विविध**न्यायालयों की सूचनाएं**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास बण्डा, जिला सागर

प्र.क्र./बी/113(1)वर्ष 2016-17.

बण्डा, दिनांक 17 अक्टूबर, 2017

मौजा-तिगोडा, तहसील शाहगढ़.

1. कोमलचंद पिता दरबारीलाल जैन,
निवासी बण्डा.

.....आवेदक

विरुद्ध

2. म.प्र. शासन

.....अनावेदक

क्र./क/ /रीडर-1/2017.—सर्व-साधारण को इस्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक कोमलचंद पिता दरबारीलाल जैन, निवासी बण्डा, तहसील बण्डा, जिला सागर के द्वारा मौजा तिगोडा, प. ह. नं.-17, तहसील शाहगढ़, जिला सागर में स्थित श्री देव पार्श्वनाथ जैन मंदिर तिगोडा, प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर के नाम खसरा नं. 198, 203, 216, 221, 377, 2017 एवं 2651 रकबा क्रमशः 5.28 दर्ज है. आवेदक द्वारा पूर्व मुहत्तमकार स्व. प्रेमचंद पिता मोहनलाल जैन एवं भायजी कपुरचंद पिता पुनू उर्फ सुनूलाल जैन की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप आवेदक स्वयं को मुहत्तमकार दर्ज किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

आवेदन पर तहसीलदार बण्डा से प्रतिवेदन लिया गया उन्होंने अपने प्रतिवेदन दिनांक 09 नवम्बर, 2016 में लेख किया है कि मंदिर में मौजा चारौथा स्थित भूमि ख. नं.-198, 203, 216, 221, 377 2017 एवं 2651 रकबा क्रमशः 5.28 में स्थित श्रीदेव पार्श्वनाथ जैन मंदिर तिगोडा मंदिर की व्यवस्थापन विनोदकुमार पिता कुदंनलाल तथा अरुणकुमार पिता प्रेमचंद तथा शेष आवेदक मिलकर कर रहे हैं तथा उन्हें ही मंदिर व्यवस्थापक नियुक्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

अतः प्रेमचंद जैन के स्थान पर अरुणकुमार पिता प्रेमचंद तथा विनोदकुमार पिता कुदंनलाल जैन को एवं शेष यथावत को मुहत्तमकार नियुक्त किए जाने में जिस किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति समक्ष में पेशी दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 को स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. वाद म्याद गुजरने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं किया जायेगा.

इस्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

जारी दिनांक 17 अक्टूबर, 2017

पेशी दिनांक 26 दिसम्बर, 2017

(1580)

बी. बी. पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर, जिला बड़वानी

रा.प्र.क्र.02-बी-113/2017-18.

फार्म नम्बर-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5 (1) के अन्तर्गत]

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर के समक्ष.

आवेदक इदरिश शेख निवासी पलसूद, तहसील राजपुर, अध्यक्ष चांदशाह एवं पत्थरी दरगाह शरीफ ट्रस्ट पलसूद द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत चांदशाह एवं पत्थरी दरगाह शरीफ ट्रस्ट पलसूद के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह नोटिस के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों में मेरे समक्ष या तो स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अभिभाषक के न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 को मेरे समक्ष एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(1594)

ऋजु बाफना,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन

प्रकरण क्र.19/बी-113/2015-16.

उज्जैन, दिनांक 16 अक्टूबर, 2017

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि आवेदक श्री पदमसिंह पिता भवरसिंह पटेल अध्यक्ष द्वारा “श्री च्यवन ऋषि आश्रम न्यास उज्जैन” तहसील व जिला उज्जैन, कार्यालय-चिंतामण जवासिया, तहसील व जिला उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस उज्जैन का विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसको गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन, लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	:	“श्री च्यवन ऋषि आश्रम न्यास उज्जैन”
कार्यालय	:	चिंतामण जवासिया, तह. व जिला उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	आवेदन पत्रानुसार निरंक है.
चल सम्पत्ति	:	चल संपत्ति के रूप में नर्मदा-झाबुआ ग्रामीण बैंक चिंतामण जवासिया, शाखा में 5000/- जमा है.

(1581)

शितीज शर्मा,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल, खण्डवा

समस्त पशु स्वामियों एवं पशु चरवाहों को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश चराई नियम, 1986 के नियम-4 के तथा इस कार्यालय की कार्य आयोजना की कंडिका 27.3.4 के अनुसार चराई के लिये प्रतिबंधित क्षेत्रों के अन्तर्गत पूर्व निमाड़, खण्डवा जिले के वनमण्डल सामान्य खण्डवा के अधीन आरक्षित एवं संरक्षित वनों के कूपों बांस एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों में दिनांक 01 जुलाई, 2017 से आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार की चराई के लिये प्रतिबंधित घोषित किये जाते हैं. जो कोई पशु स्वामी/चरवाहे वन क्षेत्रों में पशु चराते पाये जावेंगे, उनके विरुद्ध वन नियमावली अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. :-

वर्ष 2017-18 के लिये चराई के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र का विवरण

परिक्षेत्र	योजना का नाम	कार्यवृत्त का नाम	कार्यस्थल/कक्ष क्रमांक (नया/पुराना)	कार्य का लक्ष्य (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
वर्ष 2017-18 में पुनुरुत्पादन समूह के अन्तर्गत सुधार उपचार कार्यवृत्त (I.F.S.):-				
बलडी	सुधार उपचार प्रथम वर्ष कार्य वर्ष 2017-18	I.F.S.	401	76.70
बलडी	--,,--	I.F.S.	390	76.48
योग	--,,--	I.F.S.		153.18
पुनासा	--,,--	I.F.S.	188	106.28
पुनासा	--,,--	I.F.S.	167	157.01
पुनासा	--,,--	I.F.S.	217	60.47
पुनासा	--,,--	I.F.S.	171	144.82
पुनासा	--,,--	I.F.S.	202	154.91
योग	--,,--	I.F.S.		623.49
मूंदी	--,,--	I.F.S.	146	141.29
मूंदी	--,,--	I.F.S.	148	193.11
योग	--,,--	I.F.S.		334.40
पूर्व कालीभीत	--,,--	I.F.S.	602	107.95
योग	--,,--	I.F.S.		107.95
खण्डवा	--,,--	I.F.S.	63	67.22
योग	--,,--	I.F.S.		67.22
सिंगाजी	--,,--	I.F.S.	466	129.33
सिंगाजी	--,,--	I.F.S.	467	124.57
सिंगाजी	--,,--	I.F.S.	469	91.41
सिंगाजी	--,,--	I.F.S.	481	91.99
योग	--,,--	I.F.S.		437.30
चांदगढ़	--,,--		287	251.76
चांदगढ़	--,,--		244	167.45
चांदगढ़	--,,--		256	111.86
चांदगढ़	--,,--		258	98.59

1	2	3	4	5
चांदगढ़	सुधार उपचार प्रथम वर्ष कार्य वर्ष 2017-18	I.F.S.	275	154.71
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	278	169.47
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	299	221.16
योग	--,,--	I.F.S.		1175.00
महायोग	सुधार उपचार प्रथम वर्ष कार्य वर्ष 2017-18			2898.54

वर्ष 2017-18 में पुनरुत्पादन समूह के अन्तर्गत चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त (S. C. I.):-

पूर्व कालीभीत	चयन सह सुधार उपचार प्रथम वर्ष कार्य वर्ष 2017-18	S.C.I.	571	135.29
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I.	616	196.06
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I.	588	154.38
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I.	556	107.67
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I.	563	165.28
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I.	623	110.77
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I.	633	133.99
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I.	607	152.05
योग	--,,--	S.C.I.		1155.49
गुडी	--,,--	S.C.I.	753	96.49
गुडी	--,,--	S.C.I.	755	83.79
गुडी	--,,--	S.C.I.	758	83.95
गुडी	--,,--	S.C.I.	776	94.91
गुडी	--,,--	S.C.I.	779	100.28
गुडी	--,,--	S.C.I.	771	97.23
योग	--,,--	S.C.I.		556.65
खालवा	--,,--	S.C.I.	790	155.37
खालवा	--,,--	S.C.I.	766	132.91
खालवा	--,,--	S.C.I.	782	136.73
खालवा	--,,--	S.C.I.	785	93.87
खालवा	--,,--	S.C.I.	786	87.26
खालवा	--,,--	S.C.I.	794	88.57
खालवा	--,,--	S.C.I.	795	87.6
खालवा	--,,--	S.C.I.	809	111.14
खालवा	--,,--	S.C.I.	805	101.54
खालवा	--,,--	S.C.I.	815	82.36

1	2	3	4	5
खालवा	चयन सह सुधार उपचार प्रथम वर्ष कार्य वर्ष 2017-18	S.C.I.	820	91.93
खालवा	--,,--	S.C.I.	813	104.95
खालवा	--,,--	S.C.I.	817	82.85
खालवा	--,,--	S.C.I.	837	95.57
खालवा	--,,--	S.C.I.	833	84.73
योग	--,,--	S.C.I.		1537.38
पश्चिम कालभीत	--,,--	S.C.I.	889	129.90
पश्चिम कालभीत	--,,--	S.C.I.	930	88.31
पश्चिम कालभीत	--,,--	S.C.I.	901	144.54
पश्चिम कालभीत	--,,--	S.C.I.	890	81.52
पश्चिम कालभीत	--,,--	S.C.I.	875	234.37
पश्चिम कालभीत	--,,--	S.C.I.	918	88.22
पश्चिम कालभीत	--,,--	S.C.I.	919	83.81
पश्चिम कालभीत	--,,--	S.C.I.	924	81.55
पश्चिम कालभीत	--,,--	S.C.I.	882	86.70
पश्चिम कालभीत	--,,--	S.C.I.	868	129.41
पश्चिम कालभीत	--,,--	S.C.I.	845	101.18
पश्चिम कालभीत	--,,--	S.C.I.	913	88.89
पश्चिम कालभीत	--,,--	S.C.I.	858	127.76
योग	--,,--	S.C.I.		1466.16
आंवलिया	--,,--	S.C.I.	488	76.64
आंवलिया	--,,--	S.C.I.	506	162.45
आंवलिया	--,,--	S.C.I.	511	106.07
आंवलिया	--,,--	S.C.I.	523	109.34
आंवलिया	--,,--	S.C.I.	528	92.46
आंवलिया	--,,--	S.C.I.	545	180.48
आंवलिया	--,,--	S.C.I.	540	185.64
आंवलिया	--,,--	S.C.I.	494	129.51
आंवलिया	--,,--	S.C.I.	577	140.45
योग	--,,--	S.C.I.		1183.04
महायोग	चयन सह सुधार उपचार प्रथम वर्ष कार्य वर्ष 2017-18	S.C.I.		5898.72

1	2	3	4	5
वर्ष 2017-18 में पुर्नस्थापना समूह के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त (R.D.F.):-				
खण्डवा	बिगड़े वनों का सुधार प्रथम वर्ष कार्य वर्ष 2017-18	R.D.F.	716	85.55
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	712	42.97
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	719	44.06
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	17	37.4
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	731	53.32
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	722	42.85
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	725	44.65
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	68	45.64
योग	--,,--	R.D.F.		396.44
बलडी	--,,--	R.D.F.	431	26.06
योग	--,,--	R.D.F.		26.06
पुनासा	--,,--	R.D.F.	173	105.18
पुनासा	--,,--	R.D.F.	180	37.93
योग	--,,--	R.D.F.		143.11
मूंदी	--,,--	R.D.F.	80	26.4
मूंदी	--,,--	R.D.F.	73	48.78
मूंदी	--,,--	R.D.F.	71	31.36
मूंदी	--,,--	R.D.F.	647	43.71
योग	--,,--	R.D.F.		150.25
गुडी	--,,--	R.D.F.	742	48.49
योग	--,,--	R.D.F.		48.49
आंवलिया	--,,--	R.D.F.	500	59.64
योग	--,,--	R.D.F.		59.64
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	457	21.79
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	463	46.64
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	474	50.52
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	479	30.58
योग	--,,--	R.D.F.		149.53
चांदगढ़	--,,--	R.D.F.	307	15.54
योग	--,,--	R.D.F.		15.54
महायोग	बिगड़े वनों का सुधार प्रथम वर्ष कार्य वर्ष 2017-18	R.D.F.		989.06

1	2	3	4	5
वर्ष 2017-18 में नदीय तटीय कार्यवृत्त के अन्तर्गत प्रथम वर्ष कार्य :-				
पुनासा	नदीय तटीय कार्यवृत्त प्रथम वर्ष, वर्ष 2017-18		201	90.34
पुनासा	--,,--		218	53.40
पुनासा	--,,--		165	85.59
योग	--,,--			229.33
मूंदी	--,,--		136	92.68
मूंदी	--,,--		143	68.57
मूंदी	--,,--		137	70.50
योग	--,,--			231.75
महायोग	नदीय तटीय कार्यवृत्त प्रथम वर्ष, वर्ष 2017-18			461.08
वर्ष 2017-18 में जलीय दलदलीय प्रबंधन वृत्त के अन्तर्गत प्रथम वर्ष कार्य:-				
पुनासा	जलीय दलदलीय प्रबंधन वृत्त प्रथम वर्ष, वर्ष 2017-18		199	56.05
पुनासा	--,,--		228	74.18
योग	--,,--			130.23
मूंदी	--,,--		88	55.29
मूंदी	--,,--		97	39.41
मूंदी	--,,--		98	55.03
मूंदी	--,,--		99	50.78
मूंदी	--,,--		124	44.05
मूंदी	--,,--		125	28.72
योग	--,,--			273.28
बलडी	--,,--		427	5.44
बलडी	--,,--		432	20.44
बलडी	--,,--		434	54.31
बलडी	--,,--		384	72.85
योग	--,,--			153.04
चांदगढ़	--,,--		246, 247	47.88
चांदगढ़	--,,--		332	48.95
चांदगढ़	--,,--		340,341	45.8
योग	जलीय दलदलीय प्रबंधन वृत्त प्रथम वर्ष, वर्ष 2017-18			142.63
महायोग				699.18

1	2	3	4	5
वर्ष 2017-18 में अंजन अतिव्यापी प्रबंधन वृत्त के अन्तर्गत प्रथम वर्ष कार्य:-				
पुनासा	अंजन अतिव्यापी प्रबंधन वृत्त प्रथम वर्ष, वर्ष 2017-18		168	537.67
पुनासा	--,,--		158	424.99
पुनासा	--,,--		159	395.90
योग	--,,--			1358.56
मूंदी	--,,--	130, 132, 134, 139, 140		309.00
मूंदी	--,,--	133, 144, 145		280.00
मूंदी	--,,--	123		28.00
योग	--,,--			617.00
चांदगढ़	--,,--		284	300.11
चांदगढ़	--,,--		285	219.72
योग	--,,--			519.83
महायोग	अंजन अतिव्यापी प्रबंधन वृत्त प्रथम वर्ष 2017-18			2495.39
वर्ष 2017-18 में मिश्रित वृक्षारोपण प्रथम वर्ष कार्य:-				
खालवा	मिश्रित वृक्षारोपण प्रथम वर्ष, वर्ष 2017-18		950	32.44
खालवा	--,,--		949	9.98
खालवा	--,,--		835	5.38
खालवा	--,,--		832	14.59
खालवा	--,,--		839	38.29
खालवा	--,,--		959	36.14
खालवा	--,,--		PF-969	55.88
खालवा	--,,--		958	0.65
योग	--,,--			193.35
सिंगाजी	--,,--		465	34.00
सिंगाजी	--,,--		U-679	7.98
सिंगाजी	--,,--		U-680	32.89
सिंगाजी	--,,--		U-691	26.87
सिंगाजी	--,,--		U-695	27.71
सिंगाजी	--,,--		U-697	49.79
सिंगाजी	--,,--		U-699	12.78
योग	--,,--			192.02

1	2	3	4	5
गुडी	मिश्रित वृक्षारोपण प्रथम वर्ष, वर्ष 2017-18		743	59.92
गुडी	--,,--		746	63.41
योग	--,,--			123.33
खण्डवा	--,,--		32	51.47
खण्डवा	--,,--		33	37.77
खण्डवा	--,,--		653	36.85
खण्डवा	--,,--		730	69.47
योग	--,,--			195.56
महायोग	मिश्रित वृक्षारोपण प्रथम वर्ष, वर्ष 2017-18			704.26
वर्ष 2016-17 में नदीय तटीय कार्यवृत्त के अन्तर्गत रखरखाव कार्य:-				
पुनासा	नदीय तटीय कार्यवृत्त कूप नंबर 02 रखरखाव कार्य वर्ष 2016-17		208	141.76
पुनासा	--,,--		218	58.59
पुनासा	--,,--		165	87.57
योग	--,,--			287.92
मूंदी	--,,--		136	97.88
मूंदी	--,,--		144	54.2
मूंदी	--,,--		140	71.64
योग	--,,--			223.72
योग नदीय तटीय कार्यवृत्त कूप नंबर 02 रखरखाव कार्य वर्ष 2016-17				511.64
वर्ष 2016-17 में जलीय एवं दलदलीय कार्यवृत्त के अन्तर्गत रखरखाव कार्य:-				
चांदगढ़	जलीय एवं दलदलीय कार्यवृत्त कूप नंबर 03 रखरखाव कार्य वर्ष 2016-17		248	69.07
चांदगढ़	--,,--		336, 337	89.79
चांदगढ़	--,,--		344,345	49.31
पुनासा	--,,--		199	53.73
पुनासा	--,,--		224	81.62
बलड़ी	--,,--		389	67.32
मूंदी	--,,--		89	95.66
मूंदी	--,,--		95	154.33
मूंदी	--,,--		103	87.57

1	2	3	4	5
मूंदी	जलीय एवं दलदलीय कार्यवृत्त कूप नंबर 03 रखरखाव कार्य वर्ष 2016-17		114	64.54
मूंदी	--,,--		117	17.49
योग जलीय एवं दलदलीय कार्यवृत्त कूप नंबर 03 रखरखाव कार्य वर्ष 2016-17			..	830.43
वर्ष 2016-17 में वृक्षारोपण कार्यवृत्त रखरखाव कार्य:-				
सिंगाजी	मिश्रित वृक्षारोपण द्वितीय वर्ष रखरखाव कार्य वर्ष 2016-17	Plantation	U670	16.44
सिंगाजी	--,,--	Plantation	U690	24.87
सिंगाजी	--,,--	Plantation	U693	40.95
सिंगाजी	--,,--	Plantation	U694	34.67
खालवा	--,,--	Plantation	840	37.0
खालवा	--,,--	Plantation	841	20.3
खालवा	--,,--	Plantation	829	51.93
खालवा	--,,--	Plantation	969	57.24
गुडी	--,,--	Plantation	746	68.91
योग मिश्रित वृक्षारोपण द्वितीय वर्ष रखरखाव कार्य वर्ष 2016-17			..	352.310
सिंगाजी	मिश्रित वृक्षारोपण तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य वर्ष 2015-16		465	65.38
सिंगाजी	--,,--		U-675	26.69
खण्डवा	--,,--		651	34.13
खण्डवा	--,,--		34	53.70
खण्डवा	--,,--		67	20
खण्डवा	--,,--		730	30
खण्डवा	--,,--		34	49.41
गुडी सा.	--,,--		979	60.23
गुडी सा.	--,,--		746 II धनोरा	50.00
गुडी सा.	--,,--		746 II धनोरा	22.63
खालवा	--,,--		RF 840	51.92
खालवा	--,,--		RF 969	74.84
खालवा	--,,--		957	26.28
पश्चिम कालीभीत	--,,--		917-1	37.41
पश्चिम कालीभीत	--,,--		917-2	39.10
योग मिश्रित वृक्षारोपण तृतीय वर्ष 2015-16			..	641.72 or

1	2	3	4	5
सिंगाजी	मिश्रित वृक्षारोपण चतुर्थ वर्ष, वर्ष 2014-15	Plantation	465	40.00
सिंगाजी	--,,--	Plantation	U-702	18.00
सिंगाजी	--,,--	Plantation	U-682	13.21
सिंगाजी	--,,--	Plantation	U-689	16.00
खालवा	--,,--	Plantation	840	49.00
खालवा	--,,--	Plantation	P-951	22.00
खालवा	--,,--	Plantation	968	40.00
योग मिश्रित वृक्षारोपणचतुर्थ वर्ष, वर्ष 2014-15		198.21
खालवा	मिश्रित वृक्षारोपण पंचम् वर्ष रखरखाव कार्य	Plantation	945	50.00
पश्चिम. का.		Plantation	917	50.00
गुडी		Plantation	741	50.00
योग	150.00
पश्चिम कालीभीत	मिश्रित वृक्षारोपण षष्ठम् वर्ष रखरखाव कार्य	Plantation	917	20.00
गुडी	मिश्रित वृक्षारोपण षष्ठम् वर्ष रखरखाव कार्य	Plantation	741	30.00
गुडी	मिश्रित वृक्षारोपण षष्ठम् वर्ष रखरखाव कार्य	Plantation	746	50.00
खालवा	मिश्रित वृक्षारोपण षष्ठम् वर्ष रखरखाव कार्य	Plantation	948	50.00
योग	150.00
गुडी	मिश्रित वृक्षारोपण सप्तम् वर्ष रखरखाव कार्य	Plantation	P-967	50.00
खालवा	--,,--	Plantation	970	50.00
खालवा	--,,--	Plantation	782	50.00
योग	150.00
योग मिश्रित वृक्षारोपण रखरखाव कार्य		1642.24
सिंगाजी	बांस वृक्षारोपण चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य		464	100.00
सिंगाजी	--,,--		474	125.00
योग	225.00
गुडी	बांस वृक्षारोपण पंचम् वर्ष रखरखाव कार्य		753	50.00
गुडी	--,,--		755	50.00
योग.	100.00
खालवा	बांस वृक्षारोपण षष्ठम् वर्ष रखरखाव कार्य		816	50.00
खालवा	--,,--		796	50.00
योग.	100.00
गुडी	बांस वृक्षारोपण सप्तम् वर्ष रखरखाव कार्य		753	50.00
गुडी	--,,--		747	50.00
योग.	100.00
महायोग बांस वृक्षारोपण रखरखाव कार्य				525.00

1	2	3	4	5
खण्डवा	सागौन वृक्षारोपण षष्ठम् वर्ष रख-रखाव कार्य		4	40.00
	योग	40.00
मूंदी	ओकारेश्वर निधि सप्तम् वर्ष रखरखाव कार्य		80	50
गुडी	--,,--		P-967	50
	योग	100.00
चांदगढ़	सुधार उपचार कार्यवृत्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव वर्ष 2016-17	I.W.C.	251	180.51
चांदगढ़	--,,--	I.W.C.	257	95.79
चांदगढ़	--,,--	I.W.C.	256	125.40
चांदगढ़	--,,--	I.W.C.	300	91.85
चांदगढ़	--,,--	I.W.C.	241	98.38
चांदगढ़	--,,--	I.W.C.	277	143.83
चांदगढ़	--,,--	I.W.C.	275	179.47
सिंगाजी	--,,--	I.W.C.	459	87.57
सिंगाजी	--,,--	I.W.C.	468	78.11
सिंगाजी	--,,--	I.W.C.	470	174.08
सिंगाजी	--,,--	I.W.C.	481	90.54
पूर्व कालीभीत	--,,--	I.W.C.	602	194.88
खण्डवा	--,,--	I.W.C.	26	104.21
पुनासा	--,,--	I.W.C.	188	167.22
पुनासा	--,,--	I.W.C.	186	120.61
पुनासा	--,,--	I.W.C.	217	69.69
पुनासा	--,,--	I.W.C.	171	134.84
पुनासा	--,,--	I.W.C.	190	141.00
बलडी	--,,--	I.W.C.	393	55.02
बलडी	--,,--	I.W.C.	401	83.09
मूंदी	--,,--	I.W.C.	148	189.90
मूंदी	--,,--	I.W.C.	146	147.74
	योग सुधार उपचार कार्यवृत्त द्वितीय वर्ष रखरखाव वर्ष 2016-17		..	2753.73
खण्डवा	सुधार उपचार कार्यवृत्त तृतीय वर्ष रख-रखाव वर्ष 2015-16	I.F.S.	26	145.51
पूर्व कालीभीत	--,,--	I.F.S.	599	201.34

1	2	3	4	5
पुनासा	सुधार उपचार कार्यवृत्त तृतीय वर्ष रख-रखाव वर्ष 2015-16	I.F.S.	188	145.21
पुनासा	--,,--	I.F.S.	186	105.99
पुनासा	--,,--	I.F.S.	217	26.36
पुनासा	--,,--	I.F.S.	181	123.14
पुनासा	--,,--	I.F.S.	190	106.33
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	256	171.39
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	277	121.00
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	257	165.64
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	282	158.41
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	300	140.18
सिंगाजी	--,,--	I.F.S.	450	79.32
सिंगाजी	--,,--	I.F.S.	451	99.13
सिंगाजी	--,,--	I.F.S.	468	91.02
सिंगाजी	--,,--	I.F.S.	470	76.68
सिंगाजी	--,,--	I.F.S.	481	95.05
बलडी	--,,--	I.F.S.	401	63.69
बलडी	--,,--	I.F.S.	393	31.33
मूंदी	--,,--	I.F.S.	146	157.80
मूंदी	--,,--	I.F.S.	148	146.59
योग	2451.11
सिंगाजी	सुधार उपचार कार्यवृत्त रख-रखाव वर्ष 2014-15	I.F.S.	471	233.33
सिंगाजी	--,,--	I.F.S.	451	212.17
बलडी	--,,--	I.F.S.	394	136.51
बलडी	--,,--	I.F.S.	402	136.37
मूंदी	--,,--	I.F.S.	96	176.92
मूंदी	--,,--	I.F.S.	149	128.42
मूंदी	--,,--	I.F.S.	136, 137	135.67
मूंदी	--,,--	I.F.S.	123	150.93
पुनासा	--,,--	I.F.S.	190	144.23
पुनासा	--,,--	I.F.S.	165	157.15
पुनासा	--,,--	I.F.S.	197	140.08

1	2	3	4	5
पुनासा	सुधार उपचार कार्यवृत्त रख-रखाव वर्ष 2014-15	I.F.S.	186	182.03
पुनासा	--,,--	I.F.S.	151	155.55
पुनासा	--,,--	I.F.S.	225, 226	141.79
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	261	135.22
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	259	176.56
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	303	150.78
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	241	218.62
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	236	108.22
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	242	150.08
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	291	140.30
पूर्व कालीभीत	--,,--	I.F.S.	593	70.42
योग	3388.15
खण्डवा	सुधार उपचार कार्यवृत्त पंचम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2013-14	I.F.S.	22	179.28
सिंगाजी	--,,--	I.F.S.	460	228.06
सिंगाजी	--,,--	I.F.S.	474	229.94
मूंदी	--,,--	I.F.S.	137	170.55
मूंदी	--,,--	I.F.S.	145	198.54
मूंदी	--,,--	I.F.S.	92	127.58
मूंदी	--,,--	I.F.S.	93	109.12
मूंदी	--,,--	I.F.S.	124	176.63
पुनासा	--,,--	I.F.S.	189	109.35
पुनासा	--,,--	I.F.S.	187	170.07
पुनासा	--,,--	I.F.S.	152	307.88
पुनासा	--,,--	I.F.S.	197	169.52
पुनासा	--,,--	I.F.S.	226,227	184.29
पुनासा	--,,--	I.F.S.	202	139.50
बलडी	--,,--	I.F.S.	403	142.67
बलडी	--,,--	I.F.S.	386	144.04
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	261	186.3
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	259	167.11
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	283	112.91
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	291	132.49
चांदगढ़	--,,--	I.F.S.	249,243,285	205.21

1	2	3	4	5
चांदगढ	सुधार उपचार कार्यवृत्त पंचम वर्ष वर्ष 2013-14	I.F.S.	236	154.83
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	239	217.65
पूर्व कालीभीत	--,,--	I.F.S.	593	134.11
योग	4097.63
खण्डवा	सुधार उपचार कार्यवृत्त षष्ठम वर्ष रख-रखाव कार्य वर्ष 2012-13	I.F.S.	22	195.38
सिंगाजी	--,,--	I.F.S.	475	241.15
मूंदी	--,,--	I.F.S.	137	113.13
मूंदी	--,,--	I.F.S.	145	133.43
मूंदी	--,,--	I.F.S.	119	82.72
मूंदी	--,,--	I.F.S.	118	84.96
मूंदी	--,,--	I.F.S.	91	192.70
पुनासा	--,,--	I.F.S.	204, P-229	154.65
पुनासा	--,,--	I.F.S.	201	230.33
पुनासा	--,,--	I.F.S.	189	177.01
पुनासा	--,,--	I.F.S.	181	137.38
पुनासा	--,,--	I.F.S.	187	209.40
पुनासा	--,,--	I.F.S.	170	156.15
बलडी	--,,--	I.F.S.	403	186.38
बलडी	--,,--	I.F.S.	382	56.55
बलडी	--,,--	I.F.S.	P-380	31.51
बलडी	--,,--	I.F.S.	381	14.62
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	260 A	34.40
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	261	171.84
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	259	157.95
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	283	130.43
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	291	153.32
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	286	134.43
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	236	114.00
चांदगढ	--,,--	I.F.S.	239	150.30
पूर्व कालीभीत	--,,--	I.F.S.	593	166.91
पूर्व कालीभीत	--,,--	I.F.S.	U-707	60.98

1	2	3	4	5
आंवलिया	सुधार उपचार कार्यवृत्त रख-रखाव कार्य वर्ष 2012-13	I.F.S.	U-705	64.59
आंवलिया	--,,--	I.F.S.	U-706	29.25
योग सुधार उपचार कार्यवृत्त रख-रखाव कार्य वर्ष 2012-13		3765.85
महायोग सुधार उपचार कार्यवृत्त				16456.47
खालवा	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त द्वितीय वर्ष रखरखाव वर्ष 2016-17	S.C.I	786	99.29
खालवा	--,,--	S.C.I	785	100.26
खालवा	--,,--	S.C.I	790	174.29
खालवा	--,,--	S.C.I	837	143.43
खालवा	--,,--	S.C.I	766	126.45
खालवा	--,,--	S.C.I	815	72.24
खालवा	--,,--	S.C.I	816	106.86
खालवा	--,,--	S.C.I	795	99.94
खालवा	--,,--	S.C.I	809	145.92
खालवा	--,,--	S.C.I	805	75.12
खालवा	--,,--	S.C.I	782	131.91
खालवा	--,,--	S.C.I	820	86.73
खालवा	--,,--	S.C.I	794	103.61
खालवा	--,,--	S.C.I	825	96.69
खालवा	--,,--	S.C.I	814	100.57
योग	--,,--	S.C.I		1663.31
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	887	67.51
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	893	93.68
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	891	129.91
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	890	89.42
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	871	130.02
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	918	69.51
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	919	81.63
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	924	73.79
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	882	89.03
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	868	152.06
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	845	95.95
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	913	113.17
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	858	105.58
योग	--,,--	S.C.I		1290.90

1	2	3	4	5
पूर्व कालीभीत	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त द्वितीय वर्ष रखरखाव वर्ष 2016-17	S.C.I	569	173.59
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	616	196.08
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	584	92.07
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	562	67.25
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	563	113.52
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	623	149.14
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	633	157.57
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	608	185.83
योग	--,,--	S.C.I		1135.05
आवंलिया	--,,--	S.C.I	487	76.28
आवंलिया	--,,--	S.C.I	508	125.29
आवंलिया	--,,--	S.C.I	512	85.24
आवंलिया	--,,--	S.C.I	523	137.3
आवंलिया	--,,--	S.C.I	528	134.11
आवंलिया	--,,--	S.C.I	545	159.26
आवंलिया	--,,--	S.C.I	540	145.58
आवंलिया	--,,--	S.C.I	494	133.91
योग	--,,--	S.C.I		996.97
गुड़ी	--,,--	S.C.I	753	112.53
गुड़ी	--,,--	S.C.I	755	92.00
गुड़ी	--,,--	S.C.I	758	78.07
गुड़ी	--,,--	S.C.I	776	82.99
गुड़ी	--,,--	S.C.I	779	95.01
गुड़ी	--,,--	S.C.I	775	82.77
योग	--,,--	S.C.I		543.37
	योग चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त द्वितीय वर्ष रखरखाव वर्ष 2016-17	S.C.I-	..	5629.60
आवंलिया	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त रखरखाव वर्ष 2015-16	S.C.I	487	87.42
आवंलिया	--,,--	S.C.I	508	150.23
आवंलिया	--,,--	S.C.I	514	115.91
आवंलिया	--,,--	S.C.I	521	111.29
आवंलिया	--,,--	S.C.I	528	149.64
आवंलिया	--,,--	S.C.I	536	142.6
आवंलिया	--,,--	S.C.I	534	163.75

1	2	3	4	5
आंवलिया	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त	S.C.I	492	189.21
	रखरखाव वर्ष 2015-16			
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	569	68.85
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	618	215.17
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	584	155.64
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	574	181.37
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	561	134.64
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	567	144.26
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	622	139.54
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	626	110.34
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	591	172.24
खालवा	--,,--	S.C.I	751	149.18
खालवा	--,,--	S.C.I	766	128.02
खालवा	--,,--	S.C.I	782	138.92
खालवा	--,,--	S.C.I	785	93.69
खालवा	--,,--	S.C.I	786	95.26
खालवा	--,,--	S.C.I	794	78.35
खालवा	--,,--	S.C.I	795	122.25
खालवा	--,,--	S.C.I	809	138.42
खालवा	--,,--	S.C.I	802	90.94
खालवा	--,,--	S.C.I	815	65.64
खालवा	--,,--	S.C.I	811	98.3
खालवा	--,,--	S.C.I	819	70.71
खालवा	--,,--	S.C.I	816	84.33
खालवा	--,,--	S.C.I	837	104.86
खालवा	--,,--	S.C.I	825	85.94
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	887	80.72
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	893	97.8
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	891	113.9
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	890	100.84
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	871	129.34
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	918	72.17
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	919	104
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	924	92.62
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	882	72.04
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	861	103.75
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	847	151.89

1	2	3	4	5
पश्चिम कालीभीत	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त	S.C.I	912	82.16
	रखरखाव वर्ष 2015-16			
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	852	108.98
गुडी	--,,--	S.C.I	753	98.66
गुडी	--,,--	S.C.I	755	98.15
गुडी	--,,--	S.C.I	759	103.5
गुडी	--,,--	S.C.I	776	98.2
गुडी	--,,--	S.C.I	779	97.02
गुडी	--,,--	S.C.I	775	72.33
	योग चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त	5854.98
	वर्ष 2015-16			
पूर्व कालीभीत	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त चतुर्थ वर्ष	S.C.I	587	112.5
	रखरखाव वर्ष 2014-15			
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	578	238.7
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	600	274.1
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	567	195.08
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	626	145.72
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	572	84.35
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	548	106.71
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	622	173.98
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	618	142.2
आंवलिया	--,,--	S.C.I	492 A	117.10
आंवलिया	--,,--	S.C.I	507	140.10
आंवलिया	--,,--	S.C.I	511	104.63
आंवलिया	--,,--	S.C.I	521	101.70
आंवलिया	--,,--	S.C.I	522	133.94
आंवलिया	--,,--	S.C.I	536	129.37
आंवलिया	--,,--	S.C.I	534	103.61
खालवा	--,,--	S.C.I	751	103.12
खालवा	--,,--	S.C.I	786	102.98
खालवा	--,,--	S.C.I	788	76.75
खालवा	--,,--	S.C.I	825	64.16
खालवा	--,,--	S.C.I	837	89.30
खालवा	--,,--	S.C.I	811	107.32
खालवा	--,,--	S.C.I	819	99.90
खालवा	--,,--	S.C.I	816	85.12

1	2	3	4	5
खालवा	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव वर्ष 2014-15	S.C.I	815	83.12
खालवा	--,,--	S.C.I	809	149.55
खालवा	--,,--	S.C.I	795	98.77
खालवा	--,,--	S.C.I	802	102.60
खालवा	--,,--	S.C.I	785	99.10
खालवा	--,,--	S.C.I	782	89.10
खालवा	--,,--	S.C.I	766	86.93
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	925	86.48
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	919	93.95
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	918	97.27
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	909	73.35
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	890	100.58
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	892	90.91
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	893	87.12
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	879	80.80
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	876	98.25
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	861	128.61
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	847	113.86
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	852	126.67
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	887	73.96
गुडी	--,,--	S.C.I	748	353.53
गुडी	--,,--	S.C.I	756	70.90
गुडी	--,,--	S.C.I	759	131.50
गुडी	--,,--	S.C.I	775	117.30
गुडी	--,,--	S.C.I	776	95.84
गुडी	--,,--	S.C.I	768	144.37
योग :		5906.86
पूर्व कालीभीत	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त तृतीय वर्ष रखरखाव वर्ष 2013-14	S.C.I	587	115.20
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	621	135.90
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	632	151.35
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	572	173.25
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	547	82.13
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	568	195.33
पूर्व कालीभीत	--,,--	S.C.I	619	164.79

1	2	3	4	5
पूर्व कालीभीत	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त तृतीय वर्ष रखरखाव वर्ष 2013-14	S.C.I	592, 607	243.28
आंवलिया	--,,--	S.C.I	505	85.72
आंवलिया	--,,--	S.C.I	522	95.62
आंवलिया	--,,--	S.C.I	577	164.30
आंवलिया	--,,--	S.C.I	536	141.50
आंवलिया	--,,--	S.C.I	534	162.73
आंवलिया	--,,--	S.C.I	486	70.20
आंवलिया	--,,--	S.C.I	521	153.90
आंवलिया	--,,--	S.C.I	512	98.10
खालवा	--,,--	S.C.I	751	111.37
खालवा	--,,--	S.C.I	789	117.45
खालवा	--,,--	S.C.I	788	82.60
खालवा	--,,--	S.C.I	825	81.12
खालवा	--,,--	S.C.I	823	83.70
खालवा	--,,--	S.C.I	811	88.40
खालवा	--,,--	S.C.I	819	101.90
खालवा	--,,--	S.C.I	816	106.42
खालवा	--,,--	S.C.I	815	87.43
खालवा	--,,--	S.C.I	810	108.37
खालवा	--,,--	S.C.I	795	89.55
खालवा	--,,--	S.C.I	802	99.87
खालवा	--,,--	S.C.I	785	96.30
खालवा	--,,--	S.C.I	782	110.25
खालवा	--,,--	S.C.I	766	67.72
गुडी	--,,--	S.C.I	748	100.15
गुडी	--,,--	S.C.I	756	73.85
गुडी	--,,--	S.C.I	759	110.70
गुडी	--,,--	S.C.I	775	94.35
गुडी	--,,--	S.C.I	776	82.32
गुडी	--,,--	S.C.I	768	151.87
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	925	74.30
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	919	92.62
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	918	108.62
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	909	96.10

1	2	3	4	5
पश्चिम कालीभीत	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त तृतीय वर्ष रखरखाव वर्ष 2013-14	S.C.I	908	79.44
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	892	73.35
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	893	92.52
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	879	83.27
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	876	84.74
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	862	113.55
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	860	99.67
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	853	90.85
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	887	72.45
योग-चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त द्वितीय वर्ष रखरखाव वर्ष 2013-14		S.C.I	..	5440.47
पूर्व काली.	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त रखरखाव वर्ष 2012-13	S.C.I	577	101.23
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	587	110.04
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	621	99.45
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	632	138.96
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	572	185.63
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	561	96.75
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	568	183.15
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	619	174.60
पूर्व काली.	--,,--	S.C.I	592	189.18
आंवलिया	--,,--	S.C.I	513 A	168.42
आंवलिया	--,,--	S.C.I	493	102.02
आंवलिया	--,,--	S.C.I	509	115.33
आंवलिया	--,,--	S.C.I	514	114.52
आंवलिया	--,,--	S.C.I	521	121.06
आंवलिया	--,,--	S.C.I	522	132.76
आंवलिया	--,,--	S.C.I	544	140.41
आंवलिया	--,,--	S.C.I	535	142.89
गुडी	--,,--	S.C.I	752	94.95
गुडी	--,,--	S.C.I	756	82.17
गुडी	--,,--	S.C.I	759	161.00
गुडी	--,,--	S.C.I	775	141.30
गुडी	--,,--	S.C.I	770	79.62
गुडी	--,,--	S.C.I	768	173.47

1	2	3	4	5
खालवा	चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त रखरखाव वर्ष 2012-13	S.C.I	773	117.90
खालवा	--,,--	S.C.I	789	106.46
खालवा	--,,--	S.C.I	788	77.85
खालवा	--,,--	S.C.I	825	80.32
खालवा	--,,--	S.C.I	823	88.42
खालवा	--,,--	S.C.I	811	111.15
खालवा	--,,--	S.C.I	819	77.17
खालवा	--,,--	S.C.I	816	112.14
खालवा	--,,--	S.C.I	815	70.65
खालवा	--,,--	S.C.I	796	108.15
खालवा	--,,--	S.C.I	795	86.32
खालवा	--,,--	S.C.I	802	76.72
खालवा	--,,--	S.C.I	801	121.45
खालवा	--,,--	S.C.I	782	114.30
खालवा	--,,--	S.C.I	766	70.12
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	925	79.87
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	926	73.85
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	915	77.62
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	911	94.65
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	908	90.90
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	892	72.22
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	893	79.20
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	879	91.39
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	876	108.85
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	862	85.72
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	860	100.12
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	853	84.42
पश्चिम कालीभीत	--,,--	S.C.I	929	146.37
योग-चयन सह सुधार उपचार कार्यवृत्त रखरखाव वर्ष 2012-13		5653.21
महायोग-चयन सह सुधार कार्यवृत्त रखरखाव		28485.12
चांदगढ	बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त कूप नंबर 03 द्वितीय वर्ष रखरखाव कार्य 2016-17	R.D.F.	307	21.12
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	457	25.94

1	2	3	4	5
सिंगाजी	बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त कूप नंबर 03 द्वितीय वर्ष रखरखाव कार्य 2016-17	R.D.F.	463	55.84
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	474	59.52
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	674	68.67
आंवलिया	--,,--	R.D.F.	500	48.89
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	716	75.71
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	731	46.81
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	719	51.89
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	17	44.89
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	709	66.69
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	722	44.44
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	712	52.96
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	725	49.15
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	68	57.09
पुनासा	--,,--	R.D.F.	173	91.15
पुनासा	--,,--	R.D.F.	180	29.80
बलड़ी	--,,--	R.D.F.	432	27.53
मूंदी	--,,--	R.D.F.	80	32.56
मूंदी	--,,--	R.D.F.	73	130.55
मूंदी	--,,--	R.D.F.	U-645	43.28
योग बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त कूप नंबर 03 द्वितीय वर्ष रखरखाव वर्ष 2016-17		1124.48
खण्डवा	बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त रख-रखाव कार्य वर्ष 2014-15	R.D.F.	716 बोरी	61.34
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	722 हीरापुर	44.07
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	725 घाटाखेडी	62.45
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	731 बोरगाँव	60.74
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	719 गम्भीरपुरा	50.43
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	714 दीवाल	67.05
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	709 माण्डवा	71.2
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	712 जामली	34.34
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	23 द केसून	67.85
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	68 जामनिया	53.82
मूंदी	--,,--	R.D.F.	649	19.13
मूंदी	--,,--	R.D.F.	74	80.69

1	2	3	4	5
मूंदी	बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त रख-रखाव कार्य वर्ष 2014-15	R.D.F.	80	23.4
चांदगढ़	--,,--	R.D.F.	307	24.35
पुनासा	--,,--	R.D.F.	180	33.37
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	463	48.01
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	673	37.24
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	474	67.56
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	455	35.5
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	668	19.81
गुडी	--,,--	R.D.F.	742	52.7
बलड़ी	--,,--	R.D.F.	427	4.68
बलड़ी	--,,--	R.D.F.	408	2.55
बलड़ी	--,,--	R.D.F.	430	8.9
आंवलिया	--,,--	R.D.F.	499	13.23
आंवलिया	--,,--	R.D.F.	524	20.27
योग:		1064.7
खण्डवा	बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त रखरखाव कार्य वर्ष 2013-14	R.D.F.	716	56.83
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	723	54.03
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	726	45.81
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	462	197.36
मूंदी	--,,--	R.D.F.	74	103.31
पुनासा	--,,--	R.D.F.	211	131.94
खालवा	--,,--	R.D.F.		27.47
गुडी	--,,--	R.D.F.	741	47.55
गुडी	--,,--	R.D.F.	747	40.00
पश्चिम कालीभीत	--,,--	R.D.F.		38.66
योग:		742.96
खण्डवा	बिगड़े वनों का सुधार रखरखाव कार्य वर्ष 2012-13	R.D.F.	716	50.00

1	2	3	4	5
खण्डवा	बिगड़े वनों का सुधार रखरखाव कार्य वर्ष 2012-13	R.D.F.	722	50.00
खण्डवा	--,,--	R.D.F.	727	56.67
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	462-1	70.00
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	462-2	70.00
सिंगाजी	--,,--	R.D.F.	462-3	72.15
पुनासा	--,,--	R.D.F.	212-1	50.63
पुनासा	--,,--	R.D.F.	212-2	56.00
मुंदी	--,,--	R.D.F.	74	90.80
गुडी	--,,--	R.D.F.	741	37.55
गुडी	--,,--	R.D.F.	747	30.00
गुडी	--,,--	R.D.F.	742	20.00
खालवा	--,,--	R.D.F.	969	27.47
पश्चिम कालीभीत	--,,--	R.D.F.	935	38.66
योग बिगड़े वनों का सुधार रखरखाव कार्य वर्ष 2012-13		719.93
महायोग	3652.07
खण्डवा	अतिक्रमण कार्यवृत्त रखरखाव वर्ष 2013-14	E.R.D.F.	710	45.00
खण्डवा	--,,--	E.R.D.F.	711	50.00
खण्डवा	--,,--	E.R.D.F.	714	45.00
खण्डवा	--,,--	E.R.D.F.	715	45.00
खण्डवा	--,,--	E.R.D.F.	718	40.00
गुडी	--,,--	E.R.D.F.	744	40.00
योग	265.00
खण्डवा	अतिक्रमण कार्यवृत्त रखरखाव कार्य वर्ष 2012-13	E.R.D.F.	709	46.00
खण्डवा	--,,--	E.R.D.F.	711	30.00
खण्डवा	--,,--	E.R.D.F.	712	35.00
खण्डवा	--,,--	E.R.D.F.	715	47.90

1	2	3	4	5
खण्डवा	अतिक्रमण कार्यवृत्त रखरखाव कार्य वर्ष 2012-13	E.R.D.F.	718	58.50
गुडी	--,,--	E.R.D.F.	744	48.12
योग अतिक्रमण कार्यवृत्त रखरखाव कार्य वर्ष 2012-13		265.52
महायोग ई. आर. डी. एफ.		530.52
चांदगढ़	अंजन संरक्षण कार्यवृत्त रखरखाव कार्य वर्ष 2016-17		282	158.41
चांदगढ़	--,,--		283	203.63
चांदगढ़	--,,--		286	165.59
पुनासा	--,,--		166, 188	1011.50
पुनासा	--,,--		156, 157	801.83
मूंदी	--,,--		130, 132, 134, 139, 140	308.63
मूंदी	--,,--		133, 144, 145	279.71
मूंदी	--,,--		123	28
योग अंजन संरक्षण कार्यवृत्त रखरखाव कार्य वर्ष 2016-17		2957.30
पुनासा	अंजन वृक्षों का संरक्षण रखरखाव कार्य वर्ष 2015-16		155,161	534.67
पुनासा	--,,--		165	475.13
चांदगढ़	--,,--		305	191.96
चांदगढ़	--,,--		280	357.77
चांदगढ़	--,,--		304	335.35
चांदगढ़	--,,--		281	292.02
मूंदी	--,,--		130,132, 134,139,140	308.63
मूंदी	--,,--		133,144, 145	279.71
मूंदी	--,,--		123.00	28.00
योग अंजन वृक्षों का संरक्षण रखरखाव कार्य वर्ष 2015-16				2803.24
महायोग अंजन संरक्षण रखरखाव		5760.54

एस. के. सिंह,
वनसंरक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर द्वारा निर्माकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारी को संस्थावार परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कनवास	292/03-11-1987	991/18-10-2007
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोसमखेडा	296/03-11-1987	1004/23-10-2007
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढागीढाना	291/03-11-1987	991/18-10-2007
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुरपा	300/09-11-1987	1008/24-10-2007
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कठौतिया	361/26-12-1988	776/10-09-2001
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नैनी करेली	520/03-03-1997	1598/21-12-2004
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मानेगांव	540/18-03-1997	307/20-02-2004
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बटेसरा	530/13-03-1997	307/20-02-2004
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रीछा	503/31-12-1996	1598/21-12-2004
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चांवरपाठा	478/16-01-1996	1598/21-12-2004
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पस्ताना	438/20-04-1995	823/29-04-2000
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मैनावारी	529/13-03-1997	307/20-02-2004
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नयागांव	516/07-01-1997	533/25-05-2007
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सूरजगांव	557/27-03-1997	307/20-02-2004
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुर्बाबडा	471/15-01-1996	307/20-02-2004
16.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मचवारा	517/07-01-1997	537/25-05-2007
17.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पाठा	476/16-01-1996	540/25-05-2007
18.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डुडवारा (खापा)	474/16-01-1996	545/25-05-2007
19.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पांजरा	451/01-06-1995	560/28-05-2007
20.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खापा (धमना)	447/15-05-1995	562/28-05-2007
21.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उसरी	383/09-01-1990	755/29-08-2009
22.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रातामाटी	382/09-01-1990	755/29-08-2009
23.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कंधरापुर	497/31-12-1996	1598/21-12-2004
24.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झांसीघाट (खमरिया)	524/03-03-1997	1598/21-12-2004

अतः मैं, श्रीमति शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करती हूँ की उपरोक्त तालिका के कॉलम 2 में वर्णित संस्थाओं के प्रति कोई

दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 01 माह के अंदर मुझे कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम अधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(1582)

शकुन्तला ठाकुर,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1995.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 844, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 अन्नपूर्णा प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सोनकच्छ, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1201, दिनांक 06 जून, 2008 है जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1583)

देवास, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1996.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2294, दिनांक 01 नवम्बर, 2014, नटराज फल-साग एवं बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खातेगाँव, तहसील खातेगाँव, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1213, दिनांक 23 जुलाई, 2009 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. एस. बाल्के, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1583-A)

देवास, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

क्र./परि./2017/2002.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आगरोद (टोक), पंजीयन क्रमांक 1049, दिनांक 19 फरवरी, 2003 को संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने एवं दुग्ध संघ विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था अकार्यशील होने एवं बंद होना बताया जाने के कारण कार्यालय के पत्र क्रमांक 1551, दिनांक 26 अगस्त, 2017 से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये 30 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आगरोद (टोक), पंजीयन क्रमांक 1049, दिनांक 19 फरवरी, 2003 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री मनीष चौधरी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1583-B)

देवास, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

क्र./परि./2017/2003.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरदू, पंजीयन क्रमांक 1135, दिनांक 15 मई, 2006 को संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने एवं दुग्ध संघ विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था अकार्यशील होने एवं बंद होना बताया जाने के कारण कार्यालय के पत्र क्रमांक 1549, दिनांक 26 अगस्त, 2017 से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये 30 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरदू, पंजीयन क्रमांक 1135, दिनांक 15 मई, 2006 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री मनीष चौधरी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1583-C)

देवास, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

क्र./परि./2017/2004.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छायनहज्जाम, पंजीयन क्रमांक 672, दिनांक 25 अगस्त, 1989 को संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने एवं दुग्ध संघ विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था अकार्यशील होने एवं बंद होना बताया जाने के कारण कार्यालय के पत्र क्रमांक 1550, दिनांक 26 अगस्त, 2017 से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये 30 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छायनहज्जाम, पंजीयन क्रमांक 672, दिनांक 25 अगस्त, 1989 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री मनीष चौधरी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक.....को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1583-D)

मनोज जायसवाल,

उप-आयुक्त, सहकारिता.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2307.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1388, दिनांक 27 अगस्त, 2007 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सुनारी का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री डी. के. मड़ोइया, अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2308.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1388, दिनांक 27 अगस्त, 2007 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था फूलपुर का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री डी. के. मड़ोइया, अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584-A)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2309.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1388, दिनांक 27 अगस्त, 2007 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था रामनगर का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री डी. के. मड़ोइया, अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584-B)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2310.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1388, दिनांक 27 अगस्त, 2007 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सिलरा का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री डी. के. मड़ोइया, अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584-C)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2311.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./799, दिनांक 10 मई, 2007 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था

चिरली का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री डी. के. मड़ोइया, अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584-D)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2312.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1388, दिनांक 27 अगस्त, 2007 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था जैतपुर का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री डी. के. मड़ोइया, अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584-E)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2313.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./850, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था बिजरौनी का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री आर. एस. चौहान, वरि. सह. निरी., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584-F)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2314.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1388, दिनांक 27 अगस्त, 2007 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सौन्हर क्र. 2 का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री डी. पी. राठौर, सह. निरी., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584-G)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2315.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2436, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था पोहरी का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री आर. एस. चौहान, वरि. सह. निरी., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584-H)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2321.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1112, दिनांक 02 जुलाई, 2007 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मुंगावली का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री एन. एस. बरेलिया, अंके. अधि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584-N)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2322.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./797, दिनांक 10 मई, 2007 द्वारा अल्पसंख्यक महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मगरौनी का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री एन. एस. बरेलिया, अंके. अधि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584-O)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2323.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1388, दिनांक 28 जुलाई, 2007 द्वारा आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था ख्यावदा का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री एन. एस. बरेलिया, अंके. अधि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584-P)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2324.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./778, दिनांक 07 मई, 2007 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था छिरी का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री एन. एस. बरेलिया, अंके. अधि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584-Q)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2325.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1116, दिनांक 02 जुलाई, 2007 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था कूंड का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण

शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री एन. एस. बरेलिया, अंके. अधि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584-R)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2326.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1115, दिनांक 02 जुलाई, 2007 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था टोडारामपुरा का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री एन. एस. बरेलिया, अंके. अधि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584-S)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2327.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./229, दिनांक 18 जनवरी, 2013 द्वारा अ. ज. जा. खनिज उत्खनन सहकारी संस्था रामपुरा का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री डी. पी. राठौर, सह. निरी., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584-T)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2328.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1823, दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 द्वारा आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था देहरदागणेश का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री डी. पी. राठौर, सह. निरी., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584-U)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2329.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./231, दिनांक 18 जनवरी, 2013 द्वारा पत्थर उत्खनन सहकारी संस्था सेसई का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री आर. एस. चौहान, वरि. सह. निरी., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584-V)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2330.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2435, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा आदर्श खाद-बीज भंडार सहकारी संस्था पोहरी का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री आर. एस. चौहान, वरि. सह. निरी., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584-W)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2331.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./112, दिनांक 15 जनवरी, 2013 द्वारा प्राथमिक बुनकर सहकारी संस्था कोलारस का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री आर. एस. चौहान, वरि. सह. निरी., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584-X)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2332.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2420, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा सामूहिक कृषि सहकारी संस्था करमई का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री आर. एस. चौहान, वरि. सह. निरी., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584-Y)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2333.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1154, दिनांक 09 जून, 2016 द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था तालभेव का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री आर. एस. चौहान, वरि. सह. निरी., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1584-Z)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2334.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./261, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 द्वारा श्रीराम औद्योगिक सहकारी संस्था बदरवास का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री आर. एस. चौहान, वरि. सह. निरी., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1585)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2335.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./709, दिनांक 06 अप्रैल, 2016 द्वारा राधाकृष्ण प्रिंटिंग एवं प्रकाशन सहकारी संस्था शिवपुरी का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री आर. एस. चौहान, वरि. सह. निरी., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1585-A)

शिवपुरी, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

संशोधित आदेश

क्र./परि./2017/2336.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./707, दिनांक 06 अप्रैल, 2016 द्वारा मुस्कान ईंधन सहकारी संस्था शिवपुरी का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानान्तरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री आर. एस. चौहान, वरि. सह. निरी., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1585-B)

एस. के. सिंह,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 नवम्बर, 2017-कार्तिक 12, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 17 मई, 2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**-राज्य में प्रायः इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के अनूपपुर, राजगढ़ व छिंदवाड़ा को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), राजगढ़, ब्यावरा (राजगढ़), चोरई, चांद, उमरेठ, मोहखेड़ा (छिंदवाड़ा) उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**- जिला ग्वालियर व बालाघाट में रोपाई व पन्ना, दमोह, शाजापुर, झाबुआ, खरगौन, सीहोर, जबलपुर में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**- जिला ग्वालियर, खण्डवा, पन्ना में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति-**

5. **कटाई.**- जिला पन्ना, सागर व सीधी, खरगौन में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, सीहोर व रायसेन में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 17 मई, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) उडुद, मक्का, गेहूँ, चना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .		(2) . .		
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7 पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. पन्ना	. .		उडुद, मूँग, सोयाबीन, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों,		
4. पवई	. .		अलसी, मसूर, मटर, आलू प्याज		
5. शाहनगर	. .		(2) . .		
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7 पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		आलू प्याज अधिक.		
4. सागर	. .		(2) . .		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँग, उड़द सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगावां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर अधिक. मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, चना, गेहूँ अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	2.8				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4 (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्या	. .		4.(1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुंधड़क्का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4.(1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .				
23. *जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलोदा	. .				
6. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4.(1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, रायड़ा समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मटर, चना अधिक. कपास कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .				
2. टोंकखुर्द	. .				
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. . .
1. थांदला	. .				
2. मेघनगर	. .				
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. जोवट	. .				
2. अलीराजपुर	. .				
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास, गन्ना अधिक. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .				
2. सरदारपुर	. .				
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .				
2. सांवेर	. .				
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. जुताई व रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) मक्का, तुवर, चना अधिक. ज्वार, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, गेहूँ, अलसी, राई-सरसों कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .				
2. महेश्वर	. .				
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		ज्वार, कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .		(2) . .		
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) गोहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	5.1				
4. ब्यावरा	4.8				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	अप्राप्त		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) चना, तिवड़ा, मसूर, मटर, अलसी, राई-सरसों, मूँग, अधिक. गेहूँ धनिया कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..		(2) ..		
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. भैंसदेही	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	..		4. (1) उड़द अधिक. मूँग कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..		
3. जबलपुर	..				
4. मझोली	..				
5. कुण्डम	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. *जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ चना, मटर, मसूर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	. .				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. तामिया	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांडुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	5.2				
9. चांद	4.1				
10. बिछुआ	. .				
11. हरई	. .				
12. उमरेठ	7.1				
13. बोलखेड़ा	1.7				
50. *जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सिवनी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. केवलारी	. .		(2) . .		
3. लखनादोन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसोर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खैरलाँजी	. .				
4. बैहर	. .				
5. लालबर्वा	. .				
6. वारासिवनी	. .				
7. बिरसा	. .				
8. कटंगी	. .				
9. परसवाड़ा	. .				
10. किरनापुर	. .				

टीप.-*जिला रतलाम, बैतूल, नरसिंहपुर व सिवनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1579)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.